

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01052025-262823
SG-DL-E-01052025-262823असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2025/वैशाख 11, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 37
No. 137]	DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2025/VAISAKHA 11, 1947	[N. C. T. D. No. 37

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIशहरी विकास विभाग
(स्थानीय निकाय-I शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 29 अप्रैल, 2025

एफ.सं.13(591)/यूडी/एलबी-I/021800318/2025/428.—F.No. 13 (470)/UD/LB-1/MCD ELECTIONS/2022/P1-1/7-17,03 जनवरी, 2023 अधिसूचना के आंशिक आशोधन में, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) (संशोधित 2022) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल ने श्री राज कुमार भाटिया, पुत्र-श्री शिव दयाल भाटिया (क्रम सं. 5), निवासी- सी-1, पंचवटी, आदर्श नगर, दिल्ली-110033, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर त्याग-पत्र दे दिया था, के स्थान पर सत्र 2022-2027 की शेष अवधि के लिए दिल्ली नगर निगम में प्रतिनिधित्व करने हेतु श्री सागर त्यागी, पुत्र-श्री अनुज त्यागी, निवासी 564/1. बुराड़ी गांव, दिल्ली-110084 को मनोनीत किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के नाम पर और आदेश द्वारा,
मनोज कुमार पांडे, संयुक्त सचिव (एल.बी-I)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**(Local Bodies-I Branch)****NOTIFICATION**

Delhi, the 29th April, 2025

F. No. 13(591)/UD/LB-I/021800318/2025/428.—In partial modification of the notification F.No. 13(470)/UD/LB-I/MCD-Elections/2022/P1-1/7-17 dated the 3rd January, 2023 in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (3) of section 3 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby nominates Shri Sagar Tyagi, S/o Shri AnujTyagi, R/o 564/1, Village Burari, Delhi 110084 to be represented in the Municipal Corporation of Delhi for the remaining period of Session 2022-2027 in place of Shri Raj Kumar Bhatia, S/o Shri Shiv Dayal Bhatia (Sl. No.5), R/o C-1, Panchvati, Adarash Nagar, Delhi 110033, who resigned on being elected as Member of Legislative Assembly of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR PANDEY, Jt. Secy. (L.B-I)